

HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED

Date: 26.08.2023

The Manager, Corporate Relationship Department, Bombay Stock Exchange Limited, Phiroze Jeejeebbhoy Towers Dalal Street, Mumbai-400001

BSE Scrip Code- 514428

Sub:intimation of Newspaper Advertisement of the 35th Annual General Meeting of the EquityShareholders of the Company to be held on 23rd September, 2023 through Video Conference (VC) / OtherAudio-Visual Means (OAVM).

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper advertisement published regarding the Notice to the shareholders of the Company in respect of information regarding 35th Annual General Meeting.

This is for your information and records.

Thanking you Yours faithfully

For HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED

MADHUSU Digitally signed by MADHUSUDAN BAGLA DAN BAGLA Date: 2023.08.26

MADHUSUDAN BAGLA (Managing Director) DIN-01425646



B-2/8, Safdarjung Enclave, New Delhi - 110029, India



contact@bagla-group.com



www.bagla-group.com



+91-8448440430

CIN No. L74899DL1988PLC031191



FINANCIAL EXPRESS



YOUR PERFECT BANKING PARTNER

THE FEDERAL BANK LTD.REG.OFFICE: PB. No: 103, FEDERAL TOWERS, ALUVA, KERALA, INDIA - 683 101 Phone: 0484-2622263, E-MAIL: secretarial@federalbank.co.in, Website: www.federalbank.co.in, CIN: L65191KL1931PLC000368

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the following Share Certificates have been reported lost. Letter of Confirmation in lieu of Share Certificates reported as lost shall be issued, if no valid objection is received within 15 days from the date of publication of this notice.

SL No.	NAME	FOLIO	CERT.NO.	DIST.NO.	NO. OF SHARES	
	KALYANICS	41477	505438	14789561- 14795845	12570	
			604669	1708393233- 1708399517		

Place: Aluva Date: 25.08.2023

Samir P Rajdev Company Secretary

COCHIN MINERALS AND RUTILE LTD. (100% E.O.U.) AN ISO 9001: 2015 COMPANY AN ECO-FRIENDLY MODEL COMPANY

Regd. Office: P.B. No. 73, VIII/224, Market Road, Aluva - 683 101, Kerala, India. Phone: Off: 0484 - 2626789 (6 Lines) Fact: 0484 - 2532186, 2532207. Web: www.cmrlindia.com E-mail: cmrlexim@cmrlindia.com, info@cmrlindia.com CIN: L24299KL1989PLC005452

NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to the Ministry of Corporate Affairs' General Circular No 10/2022 dated 28th December 2022 and SEBI Circular No. SEBI/H0/CFD/PoD-2/P/CIR/2 023/4 dated 05th January 2023 and various other circulars issued, the 34th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Cochin Minerals and Rutile Limited convened to be held on Friday, the 15th September, 2023 at 2.00 P.M as an electronic AGM (e-AGM) through Video Conferencing (VC) to transact the business as set forth in the Notice dated 14.08.2023 (AGM Notice), the electronic (soft) copy of the AGM. Notice setting out the businesses to be transacted there at together with the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2023 and the Reports of the Board of Directors and Auditors has been sent electronically on 23.08.2023 to the Members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant(s) for communication purposes and no physical copies of the above has been or will be sent.

Soft copies of the AGM Notice and the Annual Report are made available on the website of the Company, www.cmrlindia.com and the website of the Stock Exchanges viz., BSE Ltd: www.bseindia.com.

Notice is also hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act 2013 (Act) and the applicable Rules there under and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (SEBI Regulations) that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 09th September, 2023 to 15th September, 2023 (both days inclusive), for the purpose of the AGM.

As stated in the AGM Notice, in compliance with the provisions of Section 108 of the Act, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI Regulations, the business before the AGM may be transacted through voting by electronic means and accordingly, the Company is providing the Members, the facility to exercise their right to vote on all the resolutions proposed for consideration at the AGM electronically through the e-voting services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The remote E-voting shall commence on Tuesday, 12th September 2023 (9:00 A.M. IST) and ends on Thursday, 14th September, 2023 (5:00 P.M. IST) after which date and time, CDSL shall disable the remote e-voting and no further remote e-voting shall be allowed. During the said period, Members of the Company, holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date of 08th September, 2023 may cast their vote by remote e-voting. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial

owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the e-voting facility as well as voting at the AGM. Any person who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the AGM Notice and holding shares as on the cut-off date of 08th September, 2023, may obtain the log in ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. Persons already registered with CDSL for remote e-voting can use their existing user ID and password for casting their votes.

A Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM. Members who have not cast their votes through remote e-voting will be facilitated to vote at the AGM. Members may refer to the AGM Notice for detailed instructions on remote e-voting,

participation in the AGM through VC, voting at the AGM. In case of any queries or grievances relating to e-voting procedure, Members may contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr.Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact on toll free number 1800 22 55 33. For Cochin Minerals And Rutile Limited

Suresh Kumar P. C.G.M. (Finance) & Company Secretary

Date: 24.08.2023

Place : Aluva

KALYANI

BF UTILITIES LIMITED

Regd. Off.: Mundhwa, Pune Cantonment, Pune-411036 CIN: L40108PN2000PLC015323 Website: www.bfutilities.com Tel.: +91 7719004777 Email: Secretarial@bfutilities.com

Twenty Third Annual General Meeting,

Notice is hereby given that the 23th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Wednesday, 27 September, 2023 at 11.00 a.m. (I.S.T.) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), without presence of Members at a common venue, in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, ("the Act"), and rules thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") as amended, read with General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular dated January 05, 2023 (hereinafter collectively referred to as circular(s)), to transact the business as set out in the Notice convening the 23rd AGM.

In connection of the same, kindly note as follows 1. Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year

- 2022-23: a) will be sent to all Shareholders by email, whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s) and
- b) will also be uploaded on the website of the Company at www.bfutilities.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited, www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited, www.nseindia.com and also on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) https://www.evoting.nsdl.com.

2. Manner of registering / updating email addresses:

- a) Shareholders holding shares In Physical Form are requested to provide a signed request letter mentioning Folio No., email id, Name of the Shareholder, self attested copy of PAN Card by email to pune@linkintime.co.in to register their email address and mobile number.
- b) Shareholders holding shares in dematerialised form (DEMAT) are requested to register or update their email addresses and mobile number with their relevant depository participant(s).
- Manner of casting vote(s) through e-voting:
- a) Shareholders will have an opportunity to cast their vote(s) through remote e-Voting facility, on all resolutions set out in the Notice of the AGM. This remote e-Voting facility will also be available during the AGM.
- b) The detailed instructions for remote e-Voting by shareholders holding shares in dematerialised mode, physical mode and for shareholders who have not registered their e-mail addresses are provided in the Notice of the AGM.

4. Book Closure for AGM

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed on Wednesday, September 27 2023 for the purpose of 23^{rt} AGM.

This Notice is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company in compliance with the applicable circulars of MCA and SEBI. For further information / clarification / assistance in respect of e-Voting and related matters, concern shareholders are requested to contact the Registrar and Transfer Agent of the Company and / or the Company at below mentioned address.

Block No.202, Akshay Complex, Near Ganesh Temple, off Dhole Patil Road.

Link Intime India Pvt. Ltd.

Unit - BF Utilities Limited

Place : Pune

Date : August 24, 2023

financialexp.epapr.in

Pune - 411 001. Maharashtra Tel-+91 20 26160084 / 26161629 Email: pune@linkintime.co.in

Secretarial Department BF Utilities Limited Mundhwa, Pune - 411 036 Tel No.- +91 77190 04777 Email

Secretarial@bfutilities.com

For BF Utilities Limited Sd/-B. S. Mitkari Company Secretary



Regd. Office: 74/5 6. Daman Industrial Estate, Kadaiya Village. Nani Daman, Union Territory, DD-396 210 CIN: L01122DD1991PLC002959 Tel: 0260-6614400; Fax: 0260-2221578 E-mail: compliance.officer@multibaseindia.com Website: www.multibaseindia.com

NOTICE OF THE THIRTY SECOND ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Multibase India Limited ("the Company") will be held on Friday, September 15, 2023 at 12:30 p.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business as set out in Notice of the AGM. Annual Report including notice of the AGM has been circulated only through email on August 23, 2023 to those members whose email addresses are registered with the Company. Depositories Participant / Registrar and Share Transfer Agent as on August 18, 2023. This is in accordance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and in compliance with applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Securities and Exchange Board of India ("Listing Regulations").

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company has arranged remote e-voting and e-voting facility at AGM through NSDL, viz www.evoting.nsdl.com

The Company has fixed Friday, September 08, 2023 as the cut-off date for determining members, who shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting in the AGM in proportion to their share in the paid up equity share capital of the Company. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cutoff date only shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM. Any person who has acquired shares and became member of the Company after dispatch of AGM Notice and holds shares as on the cut-off date may cast their vote as per instruction provided in the AGM Notice and any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the "cut-off date" may obtain User ID and Password by sending a request at

The remote e-voting facility shall be available during the following period and thereafter members shall not be allowed to cast their vote: From 9:30 a.m. IST of September 11, 2023

commencement or r. tomid	1 tollie or dalla for or orpholines (1) avec	
End of E-voting	Up to 5:00 p.m. IST of September 14, 2023	
e-voting is available at AGM and members at e-voting shall be able to exercise their right	fter 5:00 p.m. IST on September 14, 2023. The facility for ttending the meeting who have not cast their vote by remote t at the AGM. The members who have cast their vote by attend the meeting but shall not be allowed to vote again	

You are requested to read the instructions for members for attending the AGM through VC / OAVM and remote e-voting given on page nos. 5-9 forming part of the Notice. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) section for shareholders and e-voting user manual available at the "Downloads" section of www.evoting.nsdl.com or Members who need assistance on voting process before or during the AGM, can contact NSDL on their Toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact NSDL Official Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at evoting@nsdl.co.in or Mr. Ashok Sherugar, Link Intime India Private Limited at rnt.helpdesk@linkintime.co.in or Ms. Parmy Kamani, Company Secretary and Compliance Officer at compliance.officer@multibaseindia.com.

This information and details in this regard alongwith Annual Report including notice of AGM is also be available on the website of the Company at http://www.multibaseindia.com, BSE Limited at www.bseindia.com and on website of NSDL at www.evoting.nsdl.com

> By and order of the Board For MULTIBASE INDIA LIMITED

Date: August 24, 2023

Parmy Kamani Company Secretary and Compliance officer

HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED

Regd. Off: B-2/8, SAFDARJUNG ENCLAVE, NEW DELHI-110029 CIN: L74899DL1988PLC031191

Ph.: 011-41650347-48, Email: accounts@hindustanadhesives.com, Website: www.bagla-group.com NOTICE

Notice is hereby given that the Thirty Fifth (35") Annual General Meeting of the company will be onvened on Saturday, September 23", 2023 at 2:00 P.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure 20/2020, 17/2020, 17/2020, Regulations, 2015 read with General Circular Nos.14/2020, 17/2020, 20/2020 and 10/2022 dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020 and 28th December 2022, espectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/ CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at a

The Notice of the AGM along with Annual Report 2022-2023 will be sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the company/ depositories in accordance with the aforesaid MCA Circular and SEBI Circular. Members may note that Notice of the AGM and Annual Report 2022-2023 will also be available on the website of the company www.bagla-group.com and on the stock exchange website of the company at www.bseindia.com Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.

We urge all the shareholders who have not registered their email addresses with the Company. Depositories to do so forthwith in order to receive all communications promptly without any disruption. Updating of correct email address in the records will help us to communicate with you effectively, especially during this challenging times.

For this purpose, we request shareholders who have not updated their email addresses and Permanent Account Number to kindly update the same by following the below mentioned link and quoting your Folio No./ DP/ClientID, Certificate No., PAN, Mobile No., Email ID along with a selfattested copy of your PAN card/ Aadhar/ Valid Passport/ Share Certificate: Process for member's registration Email ID and Bank details: -

The Members holding Equity Shares of the Company in Demat Form and who have Holdings not registered their email addresses may temporarily register the same with the Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s Link Intime India Private Limited, by clicking on the link: http://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html and follow the registration process as guided therein. In case of any query, a member may send an email to M/s Link Intime India Private Limited at mt.helpdesk@linkintime.co.in It is clarified that for permanent registration of email address and Bank Details in your Demat account, members are requested to approach the respective Depository Participant ('DP') and follow the process advised by DP.

The Members holding equity shares of the company in Physical Form and Holding who have not registered their email addresses and/or Bank Account details may register the same with the Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s Link Intime India Private Limited, by clicking on the link: http://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html and follow the registration process as guided therein. In case of any query, a member may send an email to M/s Link Intime India Private Limited at mt.helpdesk@linkintime.co.in

This is for your information and records. For any query on the above matter, shareholders of the company are requested to contact:

M/s Link Intime India Private Limited,

Date: 24/08/2023

Noble Heights, 1" Floor, Plot No NH-2, C-1 Block, LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058 Tel: 011-41410592/93/94, Telefax: 011-41410591, Email: delhi@linkintime.co.in

For and on behalf of

HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED

FINANCIAL EXPRESS

financialexpress.com

Madhusudan Bagla

(Managing Director) Place: New Delhi

GOKALDAS EXPORTS LIMITED Corporate Identification Number (CIN): L18101KA2004PLC033475

Regd. Office: No. 25, 2nd Cross, 3rd Main, Industrial Suburb, Yeshwantpur, Bengaluru-560022. Tel: +91 80 68951000 Fax: +91 80 68951001 E-mail: cs@gokaldasexports.com; Website: www.gokaldasexports.com

NOTICE TO THE MEMBERS Members of Gokaldas Exports Limited ("the Company") may note that the 20th Annual General

Meeting (AGM) of the Company will be held through video conference / other audio-visual means (VC/OAVM) in Compliance with the applicable Provisions of the Companies Act, 2013 (the Act") read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, the General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 2/2022 dated May 5, 2022 and General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter collectively referred to as "the Circulars") and all other applicable laws.

In compliance with the above circulars, the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2022-23 will be sent electronically to all the Members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participants. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register their email address and mobile numbers with their respective depositories through their depository participants and Members holding shares in physical mode are requested to furnish details to the Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") KFin Technologies Limited at einward.ris@kfintech.com. The notice of the AGM and Annual Report will also be made available on the Company's website www.gokaldasexports.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

Members who have not registered their email address will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting or through e-voting system during the AGM. The manner of voting remotely for Members holding shares in dematerialized and physical mode will be provided in the Notice of AGM.

Members may note that the Board of Directors at their meeting held on May 25, 2023, have recommended a final dividend of Re. 1 (Rupee One) per equity share. The final dividend, if approved at the ensuing AGM, will be paid to all the Members who are holding shares as on the Record date. Members who have not updated their bank account details are requested to update their KYC with the depositories (where shares are held in dematerialized mode) and with the Company's RTA (where shares are held in physical mode) to receive dividend directly into their bank account on the payout date.

Members whose shareholding is in dematerialized mode are requested to notify any change in address or bank account details to their respective depository participant(s) Shareholders whose shareholding is in physical mode are requested to opt for the Electronic Clearing System (ECS) mode to receive dividend on time. for Gokaldas Exports Limited

Place : Bengaluru Date : August 24, 2023

Gourish Hegde Company Secretary



Regd. Off.: B-42, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad-500018, Telangana, INDIA Phone: +91-40-23813281, Fax: +91-40-23813694 | Website: www.zentechnologies.com, Email id: cosec@zentechnologies.com | CIN: L72200TG1993PLC015939

NOTICE is hereby given that, pursuant to provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing

NOTICE OF 30th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), RECORD DATE AND E-VOTING AND OTHER INFORMATION

Regulations"), Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") allowing the Companies to hold their AGMs through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM), the 30th AGM of the Company is scheduled to be held on Saturday, the 16th day of September. 2023 at 11.00 a.m. (IST) through VC in compliance with the aforesaid circulars. Pursuant to the above said circulars, the notice of e-AGM and explanatory statement thereto, together with annual report for

FY 2022-23 have been e-mailed to the members on August 24, 2023, and are also made available on the websites of the Company at:https://www.zentechnologies.com/annual-reports websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. Pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder and the Listing

Regulations, the Company is providing remote e-voting facility before the AGM as well as e-voting facility during the AGM The members may cast their votes using the remote e-voting platform provided by KfinTechnologies Limited(Kfintech) and the Instructions for remote e-voting, participation to e-AGM and e-voting during AGM are given in the notice of AGM which forms part of the Annual Report.

Following is the calendar of events:

1	Cut-off date for voting by the members and participation in AGM through VC. (The members of the record as on cut-off date would be eligible to participate in remote e-voting and e-voting facility during the AGM)				
2	Record date for Dividend (if approved by the members)	Friday, September 8, 2023			
3	Book closure dates	From September 09, 2023 to September 16, 2023 (bot days inclusive)			
4	Remote e-voting period will commence on	Monday, September 11, 2023 at 9.00 a.m. (IST)			
5	Remote e-voting period will end on	Friday, September 15, 2023 at 5.00 p.m. (IST)			
6	Staring time for e-voting on the date of and during AGM	Saturday, September 16, 2023 at 10:45 a.m. (IST). Th closure time for e-voting will be announced in the AGM			
7	Day, date and time of AGM	Saturday, September 16, 2023 at 11.00 a.m. (IST)			
8	Service provider for e-voting platform & AGM through VC	Kfin Technologies Limited (Kfintech)			
9	Website of the service provider (Kfintech) for e-voting	https://evoting.kfintech.com/			
10					
	person responsible to address the grievance in connection with e-voting facility	Mr. M. Raghavendra Prasad, Company Secretary and Compliance officer, Zen Technologies Limited Tel: 040-23813694; e-mail:cosec@zentechnologies.com			

The members who have not registered/updated their email addresses with the Company/RTA or Depository Participants are hereby requested to register/ update their email IDs with the respective Depository Participants or with KFin Technologies Limited to get periodical updates. The members may refer the AGM Notice for the detailed procedure on remote e-voting, e-voting during the AGM and participation in the AGM.

1. All the businesses shall be transacted only through remote e-voting before the AGM and voting by electronic means

2. A member whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficiary owners maintained by Depositories as on the cut-off date shall only be entitled to cast vote through the remote e-voting or e-voting.

3. A member may participate in the AGM through VC even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but

shall not be allowed to vote again in the AGM. 4. Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves as a speaker by sending their request from their registered email address mentioning their name, DP ID and Client ID / folio number, PAN, mobile number at cosec@zentechnologies.com from September 11, 2023 (9:00 a.m. IST) to September 14, 2023, (5:00 p.m. IST). Those members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.

> For Zen Technologies Limited M. Raghavendra Prasad Company Secretary and Compliance Officer

FORBES

EUREKA FORBES LIMITED

(formerly Forbes Enviro Solutions Limited) CIN: L27310MH2008PLC188478 Registered Office: B1/B2, 7* Floor, 701, Marathon Innova, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra - 400013, India Phone No.: +91 22 4882 1700 / Fax No.: +91 22 4882 1701

Notice of the 14th Annual General Meeting of Eureka Forbes Limited (formerly Forbes Enviro Solutions Limited) to be held through Video Conferencing / Other Audio Visual Means

Notice is hereby given that the 14" Annual General Meeting ("AGM/the Meeting") of EUREKA

Website: www.eurekaforbes.com; E-mail: compliance@eurekaforbes.com

FORBES LIMITED (formerly Forbes Enviro Solutions Limited) ("the Company") will be held on Friday, September 22, 2023 at 10:00 A.M IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business to be set out in the Notice of the AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act. 2013 ("Act/Companies Act"). Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Regulations/Listing Regulations") as amended from time to time read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 20/2021 dated December 08, 2021, General Circular No. 3/2022 dated May 05, 2022 and General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") ("SEBI Circulars") and all other relevant circulars issued from time to time. in compliance with the above circulars, the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial

Year 2022-23 will be sent to all the Members whose e-mail IDs are registered with the Company/ Depository Participants ("DPs")/ Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"). In case any Member is desirous of obtaining the Physical Copy of the Annual Report for the Financial Year 2022-23, he/she may send a request to the Company by writing to compliance@eurekaforbes.com mentioning their Members can attend/join and participate in the AGM through the VC/OAVM facility ONLY. The

instructions for joining the AGM and manner of participation in the remote e-voting or casting vote through e-voting system during the AGM will be provided in the Notice of AGM. Members attending he meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. Shareholders holding shares in physical mode and whose e-mail IDs are not registered, are requested to register their e-mail IDs with RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in and compliance@eurekaforbes.com by sending a duly signed Form ISR-1 (along with supporting

documents) mentioning their Name as registered with the RTA, Address, e-mail address, Mobile Number; self-attested copy of PAN, DP ID / Client ID or Folio No. and the Number of shares held. Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to update / register their e-mail Ds with the relevant Depository Participants. The Notice of the AGM and the Annual Report will be available on the website of the Company at www.eurekaforbes.com/investor-relations/shareholders-information/annual-general-meeting... Additionally, the Notice of AGM and the Annual Report, will also be available and may be accessed

from the relevant section of the website of the Stock Exchange where the shares of the Company are

isted i.e. BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com and also on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at <u>www.evoting.nsdl.com</u>. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations as maybe amended from time to time, the members will be provided with the facility to cast their votes on all the resolutions set forth in the Notice of the AGM using the electronic voting system (remote evoting) ONLY, provided by NSDL. The members will have an opportunity to cast their vote through electronic means either during the remote e-voting period before the meeting or at the AGM. The detailed procedure for remote e-voting before and during the AGM forms an integral part of the Notice

of the AGM. SEBI vide its circular No. SEBI/HO/ MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023 has mandated furnishing of PAN, KYC details (i.e., Postal Address with PIN Code, e-mail IDs, mobile number, bank account details), nomination details and Specimen Signature by holders of physical securities for their corresponding folio numbers. Shareholders holding physical securities, may please note that on or after October 01, 2023, in case any of the above cited documents/ details are not available in the Folio(s), the RTA shall freeze such folio(s). Shareholders are requested to visit the website of the Company or contact secretarial department of the Company for further details / guidance in the matter. Please note that after December 31, 2025, the frozen folios shall be referred by RTA/Company to the administrating authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and or Prevention of Money Laundering Act, 2002.

2021/655 dated November 3, 2021 and SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated lanuary 25, 2022 has mandated the listed Companies to issue securities in demat form only while processing service requests, viz. Issue of duplicate securities certificate, claim from Unclaimed Account, Renewal/Exchange of securities certificate, Endorsement, Sub-division/ Splitting of securities certificate. Consolidation of securities certificates/ folios. Transmission and Transposition and after verifying the same the RTA/ Company shall issue 'Letter of Confirmation' in ieu of physical securities certificate(s) within 30 days of its receipt after removing objections, if any, which shall be valid for a period of 120 days from the date of its issuance. Accordingly, Members are requested to make service requests by submitting a duly filled and signed Form ISR-4, the format of which is available on the Company's website.

The above information is being issued for the information and benefit of the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars. The Annual Report and Votice of the AGM will be sent to the Members on their registered e-mail IDs in due course.

By order of the Board of Directors for Eureka Forbes Limited (formerly Forbes Enviro Solutions Limited)

Date: August 23, 2023 Place: Mumbai

Pragya Kaul Company Secretary & Compliance Officer Membership No. 17167

NYKAA

FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED

Registered Office: 104 Vasan Udyog Bhavan | Sun Mill Compound | Tulsi Pipe Road | Lower Parel | Mumbai - 400013 Website: www.nykaa.com | Phone: +91 22 6614 9696 | Email: nykaacompanysecretary@nykaa.com CIN: L52600MH2012PLC230136

NOTICE OF THE 11™ ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice calling the 11th Annual General Meeting ("AGM") of FSN E-Commerce Ventures Limited ("the Company"), scheduled to be held in compliance with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on Monday, September 18, 2023 at 10:30 AM (IST) and Annual Report, have been sent on Thursday, August 24, 2023 electronically, to the Members of the Company. The Notice of AGM and Annual Report are available on the Company's website at www.nykaa.com, Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, and BSE Limited at www.nseindia.com and www.nseindia.com National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com and Registrar & Transfer Agent i.e. Link Intime India Private Limited ("Link Intime") at www.linkintime.co.in

The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection by the Members from the date of circulation of the Notice of the AGM. Members seeking to inspect such documents can send an e-mail to nykaacompanysecretary@nykaa.com

Instructions for remote e-voting and e-voting during AGM:

- (a) Pursuant to provisions of Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is pleased to provide the facility of remote e-voting to the shareholders, to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM. Members holding shares either in physical mode or dematerialised mode, as on Monday, September 11, 2023 ("cut-off date"), shall cast their vote electronically through electronic voting system (remote e-voting) of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com/. Only those Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. All the Members are hereby informed that the Businesses, as set out in the Notice of 11" AGM will be transacted through voting by electronic means only.
- will end on Sunday, September 17, 2023, at 05:00 PM (IST). The remote e-voting module shall be disabled for voting on Sunday, September 17, 2023, at 05:00 PM (IST) and voting through remote e-voting will not be permitted beyond 05:00 PM (IST) on Sunday, September 17, 2023. Members who have cast their vote through remote e-voting can participate in the 11" AGM but shall not

The remote e-voting period commences on Thursday, September 14, 2023, at 09:00 AM (IST) and

- be entitled to vote again. (d) Members attending the AGM who have not cast their votes by remote e-voting shall be eligible to cast
- their vote through e-voting during the AGM. (e) Members who have acquired shares after the dispatch of the Annual Report for the Financial Year ("FY") 2022-23 through electronic means and before the cut-off date are requested to refer to the Notice of AGM
- for the process to be adopted for obtaining the User ID and Password for casting the vote. (f) The manner of remote e-voting or e-voting during the AGM for shareholders holding shares in dematerialised mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses has been provided in the Notice convening the AGM. Instructions for attending the AGM
- Designated Partner, M/s. Sharma and Trivedi LLP (LLPIN: AAW-6850), Company Secretaries, Mumbai or failing him Mr. Dinesh Trivedi (Membership No. 23841/CP. No. 22407), Designated Partner, M/s. Sharma and Trivedi LLP (LLPIN: AAW-6850), Company Secretaries, Mumbai as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and e-voting at AGM process in a fair and transparent manner.

(g) The Board of Directors have appointed Mr. Sachin Sharma (Membership No. 46900/CP. No. 20423).

- (h) In case of any queries related to voting by electronic means, please refer the Frequently Asked Questions for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022-4886 7000 and 022-2499 7000 or send a request to Mr. Amit Vishal, Assistant Vice-President, NSDL at evoting@nsdl.co.in.
- Manner of registering / updating e-mail address:

New Delhi

through VC / OAVM are also provided in the Notice of the AGM.

- (i) Members holding share(s) in physical mode: by registering e-mail address with Link Intime. Click the link in their website www.linkintime.co.in at the Investor Services tab, choose the E-mail Registration heading and follow the registration process as guided therein. The Members are requested to provide details such as Name, Depository Participants ("DPs") ID, Client ID / PAN, mobile number and e-mail ID. In case of any query, a member may send an e-mail to Link Intime at mt.helpdesk@linkintime.co.in.
- Members holding share(s) in electronic mode: by registering / updating their e-mail ID in respect of demat holdings with the respective DPs by following the procedure prescribed by the DPs for receiving all communications from the Company electronically.

By the Order of the Board of Directors of **FSN E-Commerce Ventures Limited**

Sujeet Jain Chief Legal and Regulatory Officer, Company Secretary & Compliance Officer Membership No.: F6144

M. No. A41798



Date: August 24, 2023

Place: Hyderabad













Date: August 25, 2023

Place: Mumbai

अद्भूत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: डीएससी 260 साऊथ कोर्ट, डीएलएफ साकेत, नई दिल्ली 110017

CIN: L51503DL1985PLC020195 दूरभाष: +91-7048959386; ई—मेल: adhbhut.ind@rediffmail.com

वेबसाइट: www.adhbhutinfra.in

विडियो कान्फ्रैसिंग/अन्य आडियो विजुवल माध्यम द्वारा होने वाली अठतीसवीं वार्षिक साधारण बैठक के सम्बन्ध में जानकारी

अदभ्त इन्फ्रास्ट्रक्वर लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों की अठतीसवीं वार्षिक साधारण बैठक ("एजीएम"), कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') साथ में लागू सभी प्रावधानों एवं सेबी (लिस्टिंग दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं), विनियमन, 2015, ("सेबी लिस्टिंग दायत्वों") साथ में कारपोरेट मंत्रालय द्वारा जारी पठित साधारण परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 एवं साधारण परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 एवं सिक्योरीटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड ऑफ इण्डिया (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 एवं परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/ सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुपालन में एजीएम बुलावे की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय के निष्पादन हेतु विडियों कान्फ्रेसिंग ("वीसी")/अन्य आडियो विजुवल माध्यम ("ओएवीएम") द्वारा बुधवार, सितम्बर 20, 2023 को दोपहर 12:00 बजे आयोजित की जायेगी। सदस्य एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा शामिल होकर भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कम्पनी अधि ानियम, 2013 की धारा 103 के अन्तर्गत कोरम की गणना के उदेश्य से गिना जायेगा।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की सूचना के साथ कम्पनी की वित्तीय वर्ष | 2022-23 की वाषिर्क रिपोर्ट उन सदस्यों, जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉटरीज भागीदारों के पास पंजीकृत को केवल ईमेल द्वारा भेज दी जायेंगी।। उपरोक्त कागजात साथ में कम्पनी की वेबसाइट i.e. https://adhbhutinfra.in/, स्टॉक एक्सचेन्जों की वेबसाइट i.e. बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com एवं सीडीएसएल की वेबसाइट i.e. www.evotingindia.com पर भी

कम्पनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक माध्यम ("ई-वोटिंग") द्वारा एजीएम में विचार किये जाने वाले प्रस्ताओं पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करा रही है और एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर ई-वोटिंग द्वारा निष्पादन किया जा सकता है। कम्पनी वीसी/ओएवीएम माध्यम द्वारा भाग लेने वाले अपने सदस्यों को एजीएम में िरिमोट ई–वोटिंग एवं ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कराने के लिए सीडीएसएल को नियुक्त किया है। सदस्यों को सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जायेगी। वीसी/ओएवीएम माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग, डीमैट प्रपत्र अथवा भौतिक प्रपत्र में शेयर धारित सदस्य एवं जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया हैं।

एक सदस्य जिसका ईमेल पता कम्पनी/डिपॉटरीज भागीदारों के साथ पंजीकृत नहीं है और जो ईमेल के माध्यम से सजीएम की सूचना एवं 2022-2023 की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना चाहता है और वीसी/ओएवीएम माध्यम एवं एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा वोट देने अथवा रिमोट ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना चाहता हो तो उसे निम्न प्रक्रिया का पालन कर अपना ईमेल पता पंजीकरण करना होगाः

भौतिक होल्डिंग के मामले में : कृपया अपना पैन एवं केवाईसी विवरण (ई–मेल पता एवं बैंक खाते का विवरण सहित) कम्पनी के रजिस्ट्रार एण्ड शेयर हस्तांतरण एजेन्ट i.e. बीटैल फाईनेन्सियल एण्ड कम्पयूटर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, बीटैल हाऊस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगिरी, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली - 110062 को investor@beetalfinancial.com एवं beetalrta@gmail.com पर निर्धारित फार्म आईएसआर-1 को विधिवत भरकर एवं हस्ताक्षरित साथ में अन्य प्रासांगिक फार्म्स के साथ पंजीकृत/अपडेट करा लें। सदस्य प्रासांगिक फार्म्स के लिए कम्पनी की वेबसाइट https://adhbhutinfra.in/ पर पहुंच सकते हैं।

डीमैट हाल्डिंग के मामले में : डिमैटरीलाइज माध्यम में शेयर धारित सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते प्रासांगिक डिपॉटरीज भागीदारों, जिनके पास उनके डीमैट खाते बनाये गये हैं, के पास पंजीकृत/अपडेट करा लें।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट नोट्स एवं एजीएम में शामिल होने के अनुदेशों को मिलाकर और एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के तरीकों को सावधानी पूर्वक पढ़ लें।

अधिक जानकारी के लिए, सदस्य कम्पनी/आरटीए को adhbhut.ind@rediffmail.com/

investor@beetalfinancial.com पर लिख सकते हैं।

कृते अदभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हस्ता०/-अनुभव धाम

स्थान : नई दिल्ली अध्यक्ष कम पूर्णकालिक निदेशक **दिनांक** : 24.08.023 DIN: 02656812

Name of the Target Company

Name of the Acquirer and PACs

प्रपत्र स. आइएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार] कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन

केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (क) के मामले में

सैनिफ्रा पार्टनर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-585, बेसमेंट, सूट जेड 137, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली-110024 पर है।

एतद्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधी केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय ''दिल्ली राज्य'' से ''महाराष्ट्र राज्य'' में स्थानान्तरित करने के लिए 24 जुलाई, 2023 को इसके पंजीकृत कार्यालय में आयोजित विशेष सर्वसाधारण सभा में पारित विशेष संकल्प के सन्दर्भ में कम्पनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की माँग की गयी है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक आपत्ति प्रारूप फाइल कर MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में आपत्ति दर्ज कर सकत है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति को इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पास बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003, दिल्ली पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

सी-585, बेसमेंट, सूट जेड- 137, डीफेंस कॉलोनी, न्यू दिल्ली, दक्षिण दिल्ली- 110024 Email: Rajeev.kher@ase-infra.com आवेदक के लिये और की ओर

सैनिफ्रा पार्टनर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम : राजीव दिलीप खेर

पद : निदेशक

डीआईएन : 00764123

नोवा आयरन एण्ड स्टील लि.

तिथि : 25 अगस्त, 2023

पंजी. कार्या: गांव-डागौरी, तहसील बेल्हा, जिला- बिलासपुर, (छत्तीसगढ़) ई-मेलः rai_nisl2007@yahoo.com वेबसाइटः www.novaironsteel.com (CIN:L02710CT1989PLC010052) फोन: +91-07752-285225-26, फैक्स: +91-07752-285213

31वीं वार्षिक सामान्य बैठक, किताब बंदी तथा ई-वोटिंग जानकारी के लिए सूचना एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 31वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) नोटिस की सूचना निर्धारित अनुसार व्यापार को पूरा करने के लिए सेबी परिपत्र और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी संबंधित परिपत्रों और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम के लागू प्रावधानों की अनुपालना में शनिवार, 23 सितंबर, 2023 को अपराह्न 01.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग(वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जाएगी जिनका ईमेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ पंजीकृत है और कंपनी की वेबसाइट यानी www.novaironsteel.com और स्टॉक एक्सचेंज यानी www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने का निर्देश और ई-वोटिंग की प्रक्रिया जिसमें भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य या जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, कंपनी वेबसाइट www.novaironsteel.com और शेयर बाजार यानी www.bseindia.com पर उपलब्ध एजीएम नोटिस में दिए गए अनुसार अपने ईमेल पते पजीकृत करा सकते है।

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ईमेल पते को पंजीकृत करने के लिए अनुरोध पत्र, स्व सत्यापित पेन, शेयर प्रमाणपत्र और ईमेल पते और मोबाइल नंबर की स्कैन की हुई कॉपी के साथ rai_nisl2007@gmail.com पर एक ईमेल अनुरोध भेजें। दिनांक 15.09.2023 (कट-ऑफ तारीख) पर शेयर रखने वाले सदस्य सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान किए गए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए पात्र हैं और इस तरह की वोटिंग के माध्यम से व्यापार का लेन-देन किया जा सकता है। रिमोट ई-वोटिंग 20.09.2023 को सुबह 10:00 बजे शुरू होगी और 22.09.2023 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी और उसके बाद सीडीएसएल द्वारा

रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित विवरण के लिए, एजीएम की सूचना देखें। ई-वोटिंग से संबंधित पूछताछ वे मामले में, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) और ई-वोटिंग यूजर मेन्युवल www.evotingin dia.com के हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिखें या श्री राकेश दलवी, वरि. प्रबंधक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ़्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई- 400013 से संपर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें अथवा 022-23058542/43 पर कॉल करें।

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण किताब एजीएम के उद्देश्य हेतु 17.09.2023 रं 23.09.2023 तक (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रहेगी।

कृते नोवा आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थानः नई दिल्ली

BLUE CLOUD SOFTECH SOLUTIONS LIMITED

ITTB Software Private Limited (Acquirer 1),

Mrs. Janaki Yarlagadda (Acquirer 2),

ह./- (धीरज कुमार) कम्पनी सचिव दिनांक: 24.08.2023

POST OFFER ADVERTISEMENT TO THE EQUITY SHAREHOLDERS UNDER REGULATION 18 (12) IN TERMS OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 AS AMENDED OF

BLUE CLOUD SOFTECH SOLUTIONS LIMITED

Registered Office: 1-2-286, Domalguda, Hyderabad-500029, India Corporate Identification Number (CIN): L72200TG1991PLC013135, Tel: 040-23326666 / 8019658999; Email: csbluecloudsoft@gmail.com; Website: www.bluecloudsoftech.com

Open Offer for acquisition of 3.51.00.600* (Three Crores Fifty One Lakhs and Six Hundred Only) fully paid up equity shares of Rs.2/- each from equity shareholders of Blue Cloud Softech Solutions Limited (hereinafter referred to as "Target Company" or "Blueclouds") pursuant to (i) execution of Share Purchase Agreement (SPA) amongst Duranta Power Projects Private Limited (hereinafter referred to as "Seller 1"), Newton Power Private Limited (hereinafter referred to as "Seller 2") (hereinafter collectively referred to as "Sellers"), ITTB Software Private Limited (hereinafter referred to as "Acquirer 1"), Mrs. Janaki Yarlagadda (hereinafter referred to as "Acquirer 2"), Mr. Janardhana Doranala Sarma (hereinafter referred to as "Acquirer 3") (hereinafter collectively referred to as "Acquirers") and Blue Cloud Softech Solutions Limited (hereinafter referred to as "Target Company") for purchase of 1,41,92,200 (One Crore Forty-One Lakh Ninety two Thousand Two Hundred Only) Equity Shares by the Acquirers from the Sellers dated 17 th February, 2023 and (ii) issuance of 6,00,15,000** (Six Crores Fifteen Thousand) Equity Share on Preferential Basis to Mrs. Janaki Yarlagadda ("Acquirer 2"), representing 100% of the existing Public Shareholding, being the eligible shareholders of the target company for cash at a price of ₹3/- per equity share by the "Acquirers", pursuant to and in accordance with Regulations 3(1) and 4 SEBI SAST Regulations.

*Public Shareholders hold 3,51,00,600 Shares. However, 26% of the expanded capital (considering all the potential increases in the number of outstanding shares) is 5,67,16,608 which exceeds the public holding, hence restricted to total public holding i.e.,3,51,00,600.

** Total Preferential Issue is for 16,00,40,000 Equity Shares of Blueclouds, wherein Blueclouds is purchasing 4,00,10,000 shares of IT Corpz INC in lieu of issuance of 16,00,40,000 Equity Shares by way of share swap to Mrs. Janaki Yarlagadda (Acquirer 2) (6,00,15,000 Equity Shares), Yas Takaful P.J.S.C. (5,00,12,500 Equity Shares) and BlueSky Capital Fund SPC (5,00,12,500 Equity Shares). The preferential issue made to Yas Takaful P.J.S.C and BlueSky Capital Fund SPC will be in the capacity of public shareholders of Blueclouds.

This Post Offer Advertisement is being issued by Finshore Management Services Limited (hereinafter referred to as "Manager to the Offer"), on behalf of ITTB Software Private Limited (hereinafter referred to as "Acquirer 1"), Mrs. Janaki Yarlagadda (hereinafter referred to as "Acquirer 2"), Mr. Janardhana Doranala Sarma (hereinafter referred to as "Acquirer 3") (hereinafter collectively referred to as "Acquirers"), in connection with the offer made by the Acquirers, in compliance with Regulation 18(12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended ("SEBI SAST Regulations"). The Detailed Public Statement ("DPS") with respect to the aforementioned offer was made on 24th February, 2023 in Financial Express, English National Daily (in all editions), Jansatta, Hindi National Daily (in all editions), Pratahakal, Marathi daily (in Mumbai edition) and in Prajadarbar, Tamil daily (in Hyderabad edition) newspapers.

4 N	Name of the Manager to the Offer Name of the Registrar to the Offer	Finshore Manag	Doranala Sarma (A gement Services Lin			
4 N				nited		
5 C	Name of the Registrar to the Offer					
100		Aarthi Consulta	Aarthi Consultants Private Limited			
1 2	Offer Details:					
"	a) Date of Opening of the Offer	3 (Wednesday)				
ŀ	b) Date of Closure of the Offer	17 th August, 2023 (Thursday)				
6 [Date of Payment of Consideration	22 nd August, 202	23 (Tuesday)			
7 C	Details of Acquisition		· · · ·			
SI.	Particulars	Proposed in the	e Offer Document	Actuals		
No	1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 -	(Letter of Offer)				
	Offer Price	Rs. 3 per		Rs. 3 per		
100		Fully paid up equity share		Fully paid up equity share		
7.2 A	Aggregate number of shares tendered			31		
4000	Aggregate number of shares accepted	3,51,00,600		31		
	Size of the Offer (Number of shares multiplied by offer price per share)	Rs. 10,53,01,800		Rs. 93		
	Shareholding of the Acquirers before Agreements/Public Announcement					
	(No. & %)	NIL		NIL		
1.1.1	Shares Acquired by way of Share Purchase Agreement (SPA)					
	• Number	1,41,92,200		1,41,92,200		
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	(6.51 %)		(6.51 %)		
	Shares Acquired by way of Preferential Allotment*	(0.31 /0)		(0.51 /0)		
	Number	6.00	15,000	6.00	,15,000	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	(27.51 %)		(27.51%)		
	Shares Acquired by way of Open Offer	(27.3170)		(27.3170)		
	• Number	3,51,00,600 @		31 (0.00%)		
	% of Fully Diluted Equity Share Capital					
	Shares acquired after Detailed Public Statement	1		(0.00 70)		
	Number of shares acquired	NIL		NIL		
	Price of the shares acquired					
	• % of the shares acquired	ļ				
100	Post offer shareholding of Acquirer					
			10,93,07,800		7,42,07,231	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	(50.11 %)		(34.02 %)		
	Pre & Post offer shareholding of the Public	Pre-Offer	Post-Offer	Pre-Offer	Post-Offer	
	• Number	3,51,00,600	10,00,25,000	3,51,00,600	13,51,25,569	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	@	(45.85 %)	@	(61.94 %)	

@ 3,51,00,600 shares represent 100.00 % of the existing public shareholding.

Target Company in its meeting dated August 8, 2023, made a preferential allotment of 16,00,40,000 (Sixteen Crore Forty Thousand) equity shares at a price of Rs.3/- per equity share, wherein Blue cloud is purchasing 4,00,10,000 shares of IT Corpz INC in lieu of issuance of 16,00,40,000 Equity Shares by way of share swap to Mrs. Janaki Yarlagadda (Acquirer 2) (6,00,15,000 Equity Shares), Yas Takaful P.J.S.C. (5,00,12,500 Equity Shares) and Bluesky Capital Fund SPC (5,00,12,500 Equity Shares). The preferential issue made to Yas Takaful P.J.S.C and Bluesky Capital Fund SPC will be in the capacity of public shareholders of Blue cloud.

8. The Acquirers along with its Directors severally and jointly accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations under SEBI SAST Regulations. 9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI, BSE Limited and the registered office of the Target Company (Blue Cloud

Softech Solutions Limited). 10. The capitalized terms used but not defined in this advertisement shall have the meanings assigned to such terms in the Public Announcement and/or

Detailed Public Statement and/or Letter of Offer. 11. This Post offer Advertisement is being issued in all the newspapers in which the DPS has appeared.

Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirers



227, AJC Bose Road, Kolkata-700020 Tel: +91- 033-22895101 Website: www.finshoregroup.com Investor Grievance email id: investors@finshoregroup.com Contact Person: Mr. S Ramakrishna Iyengar SEBI Registration No: INM000012185

Place: Kolkata

प्रपत्र सं. युआरसी-2 अधिनियम के शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत पंजीकरण के विषय में सूचना देने के लिये विज्ञापन

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (बी) तथा कम्पनीज (पंजीकरण के लिये प्राधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुपालन में]

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुपालन में केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र (सीआरसी) में रजिस्ट्रार के पास इस सूचना के पन्द्रह दिनों के बाद किन्तु तीस दिनों की समाप्ति से पूर्व इस आशय क एक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है कि आईडियल एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, एक ट्रस्ट को एक कम्पनी लिमिटेड के रूप

में आइडियाजेनस एजुकेशनल वेलफेयर फाउण्डेशन के नाम में कम्पनी अधिनयम, 2013 के शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: संबंधित शिक्षा विभागों/प्राधिकरणों/निकायों/विश्वविद्यालयों तथा संबंधित सरकारी प्राधिकरण से मान्यता तथा प्रत्यायन प्राप्त कर बच्चें/छात्रों को माध्यमिक, सीनियर सैकण्डरी तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य रे

प्रस्तावित कम्पनी के ड्राफ्ट मेमोरैण्डम तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति 74, मोह. तखान, बड़ा गुरुद्वारा के सामने

विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना तथा प्रबंधन करना तथा साथ ही उपरोक्त शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित शैक्षिक सपोर्ट

पीलीभीत 262201 उत्तर प्रदेश में कार्यालय में देखी जा सकती है। एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन के प्रति कोई आपत्ति हो, वे उसके पंजीकृत कार्यालय कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर लिखित में अपनी आपित्त केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र (सीआरसी) भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर

जिला गुड़गाँव (हरियाणा), पिन कोड-122050 में रजिस्ट्रार के पास जमा करें। आज, दिनांक 21 अगस्त, 2023 को। मुकेश कुमार गुप्ता आइंडियल एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट

दि स्टेट ट्रेडिंग कापौरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : जवाहर व्यापार भवन, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001 67वीं वार्षिक आम बैठक हेत् सदस्यों को सूचना

(भारत सरकार का उद्यम) (CIN L74899DL1956GOI002674)

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के परिपन्न संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 के अनुसार सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 और 17/2020 क्रमशः दिनांक 08 अप्रैल, 2020 और अप्रैल, 2020, सामान्य परिपन्न संख्या के साथ पठित 02 / 2021 दिनांक 13 जनवरी 2021 और सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 5 मई 2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 और परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/ सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, परिपन्न संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी२ / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी 2021, परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई, 2022, और सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 भारतीय प्रतिमृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी ("सेबी परिपत्र") के अनुपालन में अधिनियम और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("लिस्टिंग विनियम") के प्रावधानों के अनुसार, एक आम स्थल पर सदस्यों की मौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('बीसी')/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमाँ ('ओएवीएम') की सुविचा के माध्यम से गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 को पूर्वीह 11:30 बजे कंपनी की 67वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

67वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ, ई-वोटिंग सहित बीसी / ओएवीएम की सुविधा के माध्यम से 67वीं वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के लिए लॉगइन विवरण उन सभी सदस्यों को केवल ई–मेल के माध्यम से भेजे जाएँगे, जिनके ई-मेल पते कंपनी अथवा रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अथवा अपने संबंधित डिपॉजिटरी भागीदारों ('डीपी') के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य केवल वीसी / ओएवीएम की सुविधा के माध्यम से ही 67वीं वार्षिक आम बैठक में जुड़ सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश नोटिस में दिए गए हैं। वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। 67वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना कंपनी की वेबसाइट (www.stclimited.co.in), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com और

वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। कंपनी अपने सभी सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग (एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) की सुविधा प्रदान कर रही है, ताकि वे 67वीं वार्षिक आम बैठक में तय सभी प्रस्तावों पर

www.nseindia.com) और सेंट्रल ढिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की

अपने वोट डाल सकें। दूरस्थ ई-वोटिंग हेत् विस्तृत विवरण उक्त नोटिस में दिए गए हैं। जिन सदस्यों ने ई-मेल के माध्यम से कंपनी या आरटीए के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे 67वीं एजीएम की सचना, वार्षिक रिपोर्ट और वीसी /ओएवीएम सविधा के माध्यम से 87वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने हेत् अपना नाम, फोलियों नंबर / डीपीआईडी व क्लाइंट आईडी, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रतिलिपि (डीमैट होने के मामले में), शेयर प्रमाण पत्र की कॉपी - सामने और पीछे (भौतिक होल्डिंग्स के मामले में), पैन कार्ड की ख-सत्यापित स्कैन की गई प्रतिलिपि और ई-मेल पता दर्ज करने के समर्थन में आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कॅन की गई प्रति उपलब्ध कराकर अपना ई-मेल पता मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास admin@mcsregistrars.com पर या कंपनी के पास cs@stclimited.co.in पर ई-मेल के माध्यम से पंजीकृत करा सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति, जो 67वीं एजीएम के नोटिस के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण की तारीख के बाद शेयर प्राप्त करता है और अंतिम तारीख यानी बुधवार, 13 सितम्बर, 2023 को शेयर रखता है, वह 67वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित निर्देशों अनुसार या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

यदि आपको एजीएम में शामिल होने में तथा ई-वोटिंग प्रणाली के द्वारा ई-वोटिंग करने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप www.evotingindia.com पर सहायता खंड के तहत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों ('FAQs') और ई-वोटिंग मैन्अल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या श्री राकेश दाल्वी, वरिष्ठ प्रबंधक (हेल्पलाइन नं: 022-23058542, 1800 22 5533) से संपर्क कर सकते हैं। उपरोक्त सूचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाग के लिए जारी की जा रही है और एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुपालन में है।

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से

24.08.2023 नई दिल्ली

हस्ताक्षर/-विपिन त्रिपाठी कंपनी सचिव

NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED CIN: L51909DL1984PLC019485 Regd. Office-9062/47, RAM BAGH ROAD, AZAD MARKET, DELHI- 110006

Tel. No.-011-23517516-19, Email Id-cs@necogroup.com, Website- www.necogroup.com

NOTICE TO THE MEMBERS FOR UPDATE OF

E-MAIL ADDRESS AND OTHER INFORMATION

Pursuant to the Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 19/2021 dated December 08, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, Circular No. 2/2022 dated May 05, 2022 & Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its Circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 & Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 (referred to as "SEBI Circulars"), permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at the meeting. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars and SEBI Circular, the upcoming 38th AGM of the Company will be held on Saturday, 16th Day of September, 2023 at 12.30 P.M (IST) through VC/OAVM, Hence, Members can join and participate in the AGM through

VC/OAVM facility only. Pursuant to the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of 38th AGM along with the Annual Report for FY 2022-2023 will be sent through electronic mode only, to those Members whose E-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or with Depository Participant ("DP")/ Depository. The Company is also providing e-voting during the AGM and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices.

If your email address is already registered with the Company/RTA or DP/Depository, Notice of AGM along with annual report for FY 2022-2023 and login details for e-voting shall be sent to your registered email address. In case you have not registered your email address with the Company/RTA or DP/ Depository, please follow below instructions to register your email address for obtaining notice, annual report for FY 2022-2023 and login details for e-voting. Registration/updation of e-mail addresses& bank account details:

Physical | Send a request to RTA of the Company i.e. MAS Services Holding | Limited at T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area Phase -

II, New Delhi - 110 020 in duly filled Form No. ISR-1 which can be downloaded from the website of the RTA's website i.e. www.masserv.com under download tab. You can also send the Form No. ISR-1 with digital signature to RTA's email id investor@masserv.com under copy marked to company at cs@neccgroup.com

Please contact your DP and register your email address Holding and bank account details as per the process advised by DP.

E-voting Information:

Place: Delhi

Date: 24.08.2023

The Company will provide its shareholders facility of remote e-voting through electronic voting services arranged by NSDL. Electronic voting shall also be made available to the shareholders participating in the AGM. Details regarding the same will be provided in the Notice of the AGM and will also be made available on the Company's website viz. www.neccgroup.com.

The Notice of AGM and Annual Report for FY 2022-2023 will also be available on Company's website www.neccgroup.com and website of BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Ltd at www.nseindia.com. Members attending the

meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In case of any query, the Members may contact or write RTA at address & E-mail ID as mentioned above under copy marked to the

Company. For North Eastern Carrying Corporation Limited Sd/-

Sunil Kumar Jain Chairman & Managing Director प्रपत्र-3 [विनियम -15(1)(क)]/16(3) देखें ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी-2)

प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़, (तृतीय और चतुर्य तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित) वाद सं. ओए/1707/2017

अधिनियम की थारा 19 की उप-धारा (4) के साथ पिटेत ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2क) के तहत सम्मुन Exh. No. 19475

पंजाब नैशनल बैंक

गुरप्रिंदर सिंह रमन्ना एवं अन्य

(1) गुरप्रिंदर सिंह रमन्ना एवं अन्य, <u>प्रथम पताः</u> मकान नं. 1347, सेक्टर-14, फरीदाबाद। <u>ब्रितीय पताः</u> मकान नं. 64, सेक्टर-21बी, फरीदाबाद <u>तीसरा पताः</u> मकान नं. 3(जीएफ), सेक्टर-18 ए, चंडीगढ़ चतुर्थ पताः फ्लैट नंबर डी-5, 101, पुरी कंस्ट्रवशन

(2) श्री चरणजीत सिंह पुत्र स्व. श्री मोहिंदर सिंह, निवासी नं. 64, सेक्टर-21बी, फरीदाबाद

जबकि, ओए/1707/2017 माननीय पीटासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष 27.07.2023 को प्रस्तुत

जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण रू. 23,62,439.13 के ऋण की वसूली के लिए आपके विरूद्ध दाखिल किए गए (ओ.ए.) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन,/नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है।(दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न)

अथिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार आप प्रतिवादियों को निम्न निर्देश दिया जाता है:-

सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए;

(ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें;

(iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निस्तारण के दौरान, प्रत्याभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में

संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है; (iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभृति हित सुजित किया गया है तथा∕अद्यवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अधवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण विक्री. पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व

अनुमति के बिना, नहीं करेंगे: (V) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभृत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त डोने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभृति हित धारक बैंक

अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेत् जिम्मेदार होंगे। आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवदेक को मुहैया कराने तथा दिनांक 02/09/2023 को पूर्वा. 10.30 वजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हाने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 31.07.2023 को दिया गया। अधिकारी के इस्ताक्षर सम्मन जारी करने हेतु अधिकृत

ई—मेल : compliance@blsinternational.net, दूरमाष सं: +91 11-45795002

बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : जी-4बी-1, एक्सटेंशन मोहन को-ऑपरेटिव औद्योगिक संपदा, मथुरा मार्ग, नई दिल्ली – 110044 सीआईएन : L51909DL1983PLC016907 वेबसाइट : http://www.blsinternational.com,

बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड की 39वीं वार्षिक सामान्य बैठक

कंपनी के सदस्यों से अनरोध है कि वे ध्यान दें कि बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड ("कंपनी" की 39वीं वार्षिक आम बैठक (39वीं एजीएम) गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 को 03.00 बजे आईएसटी प वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (''वीसी / ओएवीएम'') सुविधा के माध्यम आयोजित की जाएगी, जो कि 39वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित किए जाने वाले व्यवसाय क संचालन करने हेत्, और जो कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्य 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 2 / 2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 21 / 2021 दिनांक 14 दिसंबर 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 3/2022 दिनांक 5 मई 2022 और सामान्य परिपत्र संख्य 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 (''एमसीए परिपत्र''), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वार निर्गत सेबी परिपत्र संख्यायें सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांव 12 मई, 2020, सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी 2021, सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई 2022 औ सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 5 जनवरी 2023 (''सेबी परिपत्र'') के अनुपालन में तथा सेबी (सुचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली

2015 ("सेबी सूचीकरण विनियमावली") के अनुपालन में, आयोजित की जायेगी।

सितंबर, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

दिनांक : 24— अगस्त-2023

स्थान : नई दिल्ली

39वीं एजीएम की सूचना, ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया एवं अनुदेश तथा वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सदस्यों को भेजी जाएंगी जिनका ईमेल पता, 25 अगस्त 2023 के अनुसा आरटीए अर्थात बीटल फाइनेंशियल कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंत के पास उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ एजीएम की सचना की भौतिक प्रति उन सदस्यों को भेजी जाएगी जो अपने नाम, फोलियो नंबर / डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी क उल्लेखन करते हुए compliance@blsinternational.net पर उसके लिये अनुरोध करते हैं। जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटर्र प्रतिभागियों के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में और कंपनी कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के पास ईमेल द्वारा भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में इसे compliance@blsinternational.net/beetalrta@gmail/com पर पंजीकृत करें 39वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक प्रतिवेदन 2022–23, कंपनी की वेबसाइव https://www.blsinternational.com पर और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइव www.bseindia.com पर, एनएसई इंडिया लिमिटेड https://www.nseindia.com पर एर मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.msei.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। अधिनियम की धारा 91 तथा सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्य की पंजिका तथा शेयर हस्तांतरण पुस्तिकायें शुक्रवार, 15 सितंबर, 2023 से लेकर के गुरुवार, 20

कंपनी अपने उन सदस्यों को, जिनके नाम 14 सितंबर, 2023 (गुरुवार) ("कट-ऑफ तिथि") के व्यवसाय दिवस के समापन पर सदस्यों की पंजिका / लाभार्थी स्वामियों की सची में प्रवष्टि पाये जाते हैं. 39वी एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग दोनों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोट देने वं उनके अधिकार का प्रयोग करने हेतु, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल" प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करेगी। ई-वोटिंग की प्रक्रिया पर अनुदेश, जिसमें भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों या जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उर सदस्यों ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं, सहित, 39वीं एजीएम की सूचना के भाग के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

जो सदस्य डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं और अपने बैंक खाते का विवरण प्रदान / बदलना / सही करना चाहते हैं, उन्हें इसे तुरंत अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को भेजन चाहिए, न कि कंपनी को। सदस्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को अपने बैंक खाते का आईएफएससी, एमआईसीआर कोड दें। लाभांश का भूगतान करते समय, आरटीए ऐसे डिमटेरियलाइज्ड शेयरों के मामले में केवल डिपॉजिटरी द्वारा प्रदान किए गए डेट का उपयोग करने के लिए बाध्य है। जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उन्हें सलाह र्द जाती है कि वे अपने बैंक खाते का विवरण जमा करें, वे बैंक की शाखा का नाम और पता, शाख का आईएफएससी, एमआईसीआर कोड, खाते का प्रकार और खाता संख्या आरटीए व beetalrta@gmail.com पर ईमेल द्वारा भेजें।

कृते बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड धारक मेहत कंपनी सचिव एव

अनुपालन अधिकारी

आईसीएसआई सदस्यता सं. एसीएस 40502

हिन्दुस्तान अधेसिव लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : बी-2/2, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली-110029

सीआईएन : L74899DL1988PLC031191 दूरभाष : 011-41650347-48,

ई-मेल : accounts@hindustanadhesives.com, वेबसाइट : www.bagla-group.com एतदवारा सचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के लाग प्रावधानों

तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020 और 10/2022 क्रमश- दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020 और 28 दिसंबर 2022 ('एमसीए परिपत्र') के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और उद्घाटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुपालन में किसी कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना कंपनी की पैंतीसवीं (35वीं) वार्षिक आम बैठक शनिवार, 23 सितंबर, 2023 को दोपहर 2:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) की सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 के साथ एजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी

जिनके ई-मेल पते उक्त एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र के अनसार कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकत हैं। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 कंपनी की वेबसाइट www.bagla-group.com और कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं और इसमें उपस्थित हो सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी। हम उन सभी शेयरधारकों से आग्रह करते हैं जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए

अपडेट करने से, खासकर इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान, हमें आपके साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद इस उद्देश्य हेतु, हम उन शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं जिन्होंने अपने ई-मेल पते तथा स्थायी खाता संख्या अपडेट नहीं कराये हैं, कपया अपने पैन कार्ड/आधार/वैध पासपोर्ट/शेयर प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ

हैं, वे बिना किसी व्यवधान के सभी संचार तुरंत प्राप्त करने के लिए तुरंत ऐसा करें। रिकॉर्ड में सही ईमेल पता

अपने फोलियो नं./डीपी/क्लाइंट आईडी, प्रमाणपत्र सं., पैन, मोबाइल नं., ई-मेल आईडी का उल्लेख करते हुए नीचे उल्लिखित लिंक का अनुपालन करके इसे पंजीकृत कराने का निवेदन किया जाता है। सदस्यों के ई-मेल आईडी तथा बैंक विवरण पंजीकत कराने की प्रक्रिया : जिन सदस्यों के पास कम्पनी के इक्विटी शेयर डीमैट प्रारूप में हैं और जिन्होंने अपने ई–मेल पते पंजीकृत

नहीं कराये हैं वे अपने ई-मेल पते कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट मैसर्स लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ लिंक http://linkintime.co.in/emailreg/email register.htm 'पर क्लिक करके और उसमें निर्देशित पंजीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन करके अस्थायी रूप से पंजीकृत करा सकते हैं। किसी पछताछ के लिए सदस्य मैसर्स लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के पास rnt.helpdesk@linkintime पर ई-मेल कर सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-मेल पते तथा अपने डीमैट खाते में बैंक विवरणों को स्थायी रूप से पंजीकृत कराने के लिए सदस्य अपने सम्बद्ध डिपॉजिटरी भागीदार (''डीपी'') से सम्पर्क करें और डीपी द्वारा परामर्शित प्रक्रिया का अनुपालन करें।

भौतिक प्रारूप में कम्पनी के इक्विटी शेयर धारण करने वाले सदस्य जिन्होंने अपने ई-मेल पता तथा/अथवा बैंक खाता विवरण पंजीकृत नहीं कराया है वे अपने ई-मेल पते कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट मैसर्स लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ लिंक http://linkintime.co.in/emailreg/email register.htm' पर क्लिक करके और उसमें निर्देशित पंजीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन करके अस्थायी रूप से पंजीकृत करा सकते हैं किसी पूछताछ के लिए सदस्य मैसर्स लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के पास rnt.helpdesk@linkintime

पर ई–मेल कर सकते हैं। यह आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए है. उपरोक्त मामले पर किसी भी प्रश्न के लिए, कंपनी के शेयरधारकों से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है:

मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइटस, पहली मंजिल, प्लॉट नंबर एनएच-2, सी-1 ब्लॉक, एलएससी, सावित्री मार्केट के पास, जनकपरी,

दूरभाषः 011-41410592/93/94, टेलीफैक्सः 011-41410591, ईमेलः delhi@linkintime.co.in से सम्पर्क करें कृते एवं हिते हिन्दुस्तान अधेसिव लिमिटेड

तिथि : 24.08.2023 स्थान : नई दिल्ली

मधुसूदन बगला (प्रबन्ध निदेशक)

Finshore Management Services Limited, Anandlok Block A, Room-207,



